



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 16, 1969/अश्विन 24, 1891

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 1969/ASVINA 24 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th October 1969

S.O. 4225.—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Sohan Singh elected to that House from 2-Ferozepur Parliamentary Constituency in the State of Punjab;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 20th November, 1969, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/PB-HP/1/69(1).]

S.O. 4226.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 2-Ferozepur Parliamentary Constituency in the State of Punjab in pursuance of its notification No. 100/PB-HP/1/69(1), dated the 16th October, 1969:—

- (a) the 23rd October, 1969 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 24th October, 1969 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 27th October, 1969 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 16th November, 1969 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 20th November, 1969 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/PB-HP/1/69(2).]

**S.O. 4227.**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 2-Ferozepur Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/PB-HP/1/69(1), dated the 16th October, 1969.

[No. 100/PB-HP/1/69(3).]

By Order,  
ROSHAN LAL, Secy.

### ERRATUM

"In the Commission's notification No. 56/69-VII, dated the 14th August, 1969, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 14th August, 1969, as S.O. 3304 in item I (ii) 2, for the words "Forward Block" read "Forward Bloc".

### भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1969

**एस० ओ० 4228**—यतः, पंजाब राज्य में के 2-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री सोहन सिंह के त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हई रिक्त को भरने के लिए 20 नवम्बर, 1969 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तब्दीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/पंजाब-लोक स०/1/69 (1)]

**एस० ओ० 4229**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पंजाब-लो० स० 1/69 (1), तारीख 16 अक्टूबर, 1969 के अनुसरण में पंजाब राज्य में के 2-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में —

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख—23 अक्टूबर, 1969 (गुरुवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख—24 अक्टूबर, 1969 (शुक्रवार);
- (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख—27 अक्टूबर, 1969 (सोमवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा—16 नवम्बर, 1969 (रविवार), तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा—20 नवम्बर, 1969 (गुरुवार);

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/पंजाब लो० स०/1/69 (2)]

एस० नो० 4230—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पंजाब-लो० सं० / 1/69 (1), तारीख 16 अक्टूबर, 1969 के अनुसरण में 2-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/पंजाब-लो० सं० / 1/69 (3)]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव।

